

महाकुंभ

चर्चा में क्यों?

एक आधिकारिक बैठक के बाद जारी एक बयान में **उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री** ने कहा कि **वर्ष 2025 में प्रयागराज** में आयोजित होने वाले **महाकुंभ** का राज्य की अर्थव्यवस्था पर "बड़ा प्रभाव" पड़ेगा क्योंकि इस आयोजन में करोड़ों लोग शामिल होंगे।

- **घरेलू और वैश्विक दोनों पर्यटकों** को आकर्षित करने के लिये अनुसंधान किया जाना चाहिये तथा एक व्यावहारिक कार्य योजना बनाई जानी चाहिये।

मुख्य बट्टि:

- आधिकारिक बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य को **एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था** बनाने के संकल्प को पूरा करने की दशा में चल रहे परयासों, वर्तमान परणामों और भविष्य की नीति पर चर्चा की।
 - इस बात पर जोर दिया गया कि सभी मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारी जीवन को आसान बनाने तथा अधिकतम रोजगार सृजन की दशा में विशेष परयास करें।
- राज्य का कुल **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** वर्ष 2021-22 में 16.45 लाख करोड़ था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 25.48 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा।
 - उत्तर प्रदेश **राष्ट्रीय आय** में 9.2% का योगदान दे रहा है तथा देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के विकास का इंजन बनकर उभर रहा है।
 - **राज्य की बेरोजगारी दर** जो वर्ष 2017-18 में 6.2% थी वर्ष 2024 में घटकर 2.4% हो गई है।

महाकुंभ

- कुंभ मेला **संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)** मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक वरिसत की प्रतिनिधि सूची के अंतर्गत आता है।
- यह पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है, जिसके दौरान तीर्थयात्री पवित्र नदी में स्नान या डुबकी लगाते हैं।
 - यह **नासिक में गोदावरी नदी, उज्जैन में शपिरा नदी**, हरद्वार में गंगा व प्रयागराज में गंगा, यमुना एवं पौराणिक नदी सरस्वती के संगम पर आयोजित होता है
- चूंकि यह भारत के चार अलग-अलग शहरों में आयोजित किया जाता है, इसमें विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं, जिससे यह **सांस्कृतिक रूप से विविध त्योहार** बन जाता है।
- **एक महीने से अधिक समय तक चलने वाले** इस मेले में एक विशाल तंबूनुमा बस्ती का निर्माण किया जाता है, जिसमें झोपड़ियाँ, मंच, नागरिक सुविधाएँ, प्रशासनिक और सुरक्षा उपाय शामिल होते हैं।
 - इसका आयोजन सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों और पुलिस द्वारा अत्यंत कुशलतापूर्वक किया जाता है।
- यह मेला विशेष रूप से जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं के सुदूर स्थानों से **आये धार्मिक तपस्वियों की असाधारण उपस्थिति के लिये प्रसिद्ध** है।